



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12--फरवरी 18, 2005, (माघ 23, 1926)  
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12--FEBRUARY 18, 2005 (MAGHA 23, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I--खण्ड 4

PART I--SECTION 4

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(थल सेना विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2005

सं. 83, दिनांक 24 जनवरी 2005--थल सेना अनुदेश 15/79 तथा उसमें जारी संशोधनों के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

सं. 82, दिनांक 17 जनवरी 2005--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (म.प्र. : 73) की अधिकारी डॉ. (श्रीमती) रेखा भार्गव का मध्य प्रदेश सरकार से स्थानांतरण होने पर उन्हें 15 दिसम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना  
सैनिक दत्त चिकित्सा कोर  
(सीधा स्थाई कमीशन)  
लेफ्ट के पद पर (परख पर)

2. यह अधिसूचना मंत्रालय की 16 दिसम्बर 2004 को जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करती है।

डी आर-10553 के, अतुल बाली, ए डी कोर, बी डी एस शिमला 08 अप्रैल 2003

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 08-10-2002 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए छः महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (एम.टी. : 86) के अधिकारी डॉ. अलिन्द रस्तोगी का त्रिपुरा सरकार से स्थानांतरण होने पर उन्हें 3 जनवरी 2005 (पूर्वाह्न) से 2 जनवरी 2010 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक इनमें से जो भी पहले हो रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

(02-08-03 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त आफिसर से है, रद्द किया जाता है)।

वी. सरस्वती  
उप सचिव

परमजीत मिश्र  
मेजर जनरल  
ए डी जी डी एम

## (वायु शाखा)

सं. 84, दिनांक 20 जनवरी 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके नामों के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत स्थायी कमीशन तथा विंग परखाधीन प्रदान करते हैं। ये अफसर स्थायी कमीशन तथा विंग परखाधीन प्रदान करने की तारीख से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं :

भारतीय वायु सेना  
उड़ान पायलट शाखा

फ्लाईंग अफसर नितिन रावत (27199), गौरव अवस्थी (27203), मनदीप हुडा (27204), शेख फजलुल हक (27226), दिनांक 21 दिसम्बर 2002 से।

संजीव श्रीवास्तव  
स्क्वाड्रन लीडर  
डी डी पी ओ 3(डी)

## सेना शाखा

सं. 85, दिनांक 18 जनवरी 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
कप्तान से मूल मेजर के रैंक में

वी-514एक्स कप्तान तुसार उपासनी आर वी सी, 02 सितम्बर 2003  
वी-525के कप्तान रवि कान्त शर्मा आर वी सी, 02 सितम्बर 2003  
वी-527पी कप्तान विशाल नंदा आर वी सी, 02 सितम्बर 2002  
वी-529ए कप्तान ऋषाब दत्ता आर वी सी, 03 मार्च 2004  
वी-530पी कप्तान जगवीर सिंह राणा आर वी सी, 03 मार्च 2004  
वी-531एक्स कप्तान जयवीन्द्र सिंह आर वी सी, 03 मार्च 2004  
वी-532ए कप्तान एम खिजर आसिफ एम अकबर आर वी सी, 20 मार्च 2004

वी-533एच कप्तान सतेन्द्रपाल सिंह आर वी सी, 16 जून 2004  
वी-534एल कप्तान विकास ठाकुर आर वी सी, 05 अक्टूबर 2004  
वी-539के कप्तान एस के चौबै आर वी सी, 05 अक्टूबर 2004  
वी-540वाई कप्तान एच के तिवारी आर वी सी, 05 अक्टूबर 2004  
वी-541एफ कप्तान बी राजाकुमार आर वी सी, 05 अक्टूबर 2004  
वी-545एक्स कप्तान सुखबीर सिंह आर वी सी, 05 अक्टूबर 2004

वायु रक्षा तोपखाना कोर

सब्सटैटिव सूबेदार मेजर (जी.डी.) के पद में

सूबेदार सुख राम (जेसी-255435एम), 01 जून 2004  
सूबेदार अर्जुन प्रशाद त्रिपाठी (जेसी-255520पी), 01 सितम्बर 2004  
सूबेदार चांदी प्रशाद (जेसी-255906पी), 01 नवम्बर 2004

## सब्सटैटिव सूबेदार (जी.डी.) के पद में

नायब सूबेदार रामपत यादव (जेसी-298267एम), 07 अक्टूबर 2004/29 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार राजकुमार शर्मा (जेसी-297892एफ), 14 अप्रैल 2004/15 मार्च 2004×

नायब सूबेदार छोटे लाल यादव (जेसी-297908एफ), 01 सितम्बर 2004/01 मई 2004×

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-297985डब्ल्यू), 01 जून 2004

नायब सूबेदार गुरांम दिब्बान्ना (जेसी-297989एम), 09 जून 2004/01 जून 2004×

नायब सूबेदार ओमबोर सिंह (जेसी-297458पी), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार राम प्रसाद पाण्डे (जेसी-297549वाई), 08 अगस्त 2004/01 जुलाई 2004×

नायब सूबेदार चंद्रमा मिश्रा (जेसी-298001ए), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार मुलायम सिंह (जेसी-298004एन), 05 जुलाई 2004/01 जुलाई 2004×

नायब सूबेदार अशोक हुदर (जेसी-298154के), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार एम दुरई (जेसी-298104वाई), 23 अगस्त 2004/30 जुलाई 2004×

नायब सूबेदार रमेश चंद (जेसी-298607के), 24 सितम्बर 2004/30 जुलाई 2004×

नायब सूबेदार सत्यपाल (जेसी-298026एम), 09 सितम्बर 2004/26 जुलाई 2004×

नायब सूबेदार चिन्ना दुरई एस (जेसी-298095एच), 25 सितम्बर 2004/29 जुलाई 2004×

नायब सूबेदार पुलासनी चिन्ना नारायना रेड्डी (जेसी-297958एम), 01 अक्टूबर 2004/31 जुलाई 2004×

नायब सूबेदार नथु यादवा (जेसी-298268पी), 22 सितम्बर 2004/31 जुलाई 2004×

नायब सूबेदार विरेंद्र सिंह (जेसी-297698एम), 09 सितम्बर 2004/01 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार मोहम्मद करीमुद्दीन (जेसी-297857वाई), 20 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-298068वाई), 28 सितम्बर 2004/01 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार चमन लाल (जेसी-298375डब्ल्यू), 15 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार महेंद्र माहतो (जेसी-298343एफ), 04 अक्टूबर 2004/01 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार अडिवेप्पा एम तिगाडी (जेसी-298611एम), 28 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार वेंकप्पा एस (जेसी-297114डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004/08 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार भवेश चंद्र बर्मन (जेसी-298039के), 18 सितम्बर 2004/15 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार राम सेवक शर्मा (जेसी-298550ए), 03 अक्टूबर 2004/24 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार नेपाल सिंह (जेसी-297748एम), 07 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004×

नायब सूबेदार हरी किशन (जेसी-297832एम), 10 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004×

नायब सूबेदार जेशी राम (जेसी-298016एच), 04 अक्टूबर 2004/01 सितम्बर 2004×

नायब सूबेदार कुंवर केदारनाथ सिंह (जेसी-297964ए), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार गोम प्रकाश हरिजन (जेसी-298048एल), 18 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004×

नायब सूबेदार रघवीर सिंह (जेसी-298419एच), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-297129वाई), 01 अक्टूबर 2004/05 सितम्बर 2004×

नायब सूबेदार प्रवीन चंद्र नाथ (जेसी-297515एल), 01 नवम्बर 2004/22 सितम्बर 2004×

नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह (जेसी-297457एम), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार राजिंदर सिंह (जेसी-297800के), 03 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004×

नायब सूबेदार ओसेफ चेरियन (जेसी-297802पी), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार गुरदेव चंद (जेसी-297983एल), 16 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004×

नायब सूबेदार सुखेंद्र सिंह (जेसी-298006वाई), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार सोनवने विजय कुमार किसान (जेसी-298334एम), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार बिनोद सिंह (जेसी-298350के), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार बृज लाल यादव (जेसी-298510वाई), 23 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004×

नायब सूबेदार माईबम योगेन्द्र सिंह (जेसी-297607एक्स), 01 नवम्बर 2004

सब्सर्टेंटिब सूबेदार (टी.आई.एफ.सी.) के पद में

नायब सूबेदार देवा गुप्तपु वेंकटा रामजी (जेसी-298245एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार कवलजीत सिंह दत्ता (जेसी-298473डब्ल्यू), 30 अगस्त 2004/11 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार रिशी पाल (जेसी-298530एच), 07 सितम्बर 2004/11 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-298508एफ), 31 अगस्त 2004/11 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार कैलाश पति तिवारी (जेसी-298538वाई), 30 अगस्त 2004/11 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार लाखन सिंह (जेसी-298474वाई), 20 अगस्त 2004/11 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार जीवन लाल (जेसी-298540डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार उमाकांत मिश्रा (जेसी-298573एफ), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार लाखन सिंह (जेसी-298539एफ), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार राम प्रकाश सिंह (सं. 14490655पी अब जेसी-299070एच), 23 जुलाई 2004/01 जून 2004×

हवलदार रहमत हुसैन (सं. 14472687पी अब जेसी-299071एल), 01 जुलाई 2004

हवलदार राम औतार (सं. 14367462एन अब जेसी-299072एन), 29 सितम्बर 2004/25 जुलाई 2004×

हवलदार वी नमसिवायम (सं. 14361076एल अब जेसी-299073डब्ल्यू), 26 अगस्त 2004/05 अगस्त 2004×

बीएचएम साहब सिंह (सं. 14348647ए अब जेसी-299074वाई), 01 सितम्बर 2004/08 अगस्त 2004×

हवलदार अशोक कुमार (सं. 14352616एक्स अब जेसी-299075एफ), 04 सितम्बर 2004/31 अगस्त 2004×

हवलदार सतवीर सिंह (सं. 14348428वाई अब जेसी-299076के), 19 अक्टूबर 2004/31 अगस्त 2004×

आरएचएम बौडालापु रामा राव (सं. 14358410डब्ल्यू अब जेसी-299077एम), 22 अक्टूबर 2004/01 सितम्बर 2004×

बीएचएम एस देवाराजु (सं. 14358273एच अब जेसी-299078पी), 04 अक्टूबर 2004/02 सितम्बर 2004×

हवलदार कुलविंदर सिंह (सं. 14363723वाई अब जेसी-299079एक्स), 01 नवम्बर 2004/22 सितम्बर 2004×

बीएचएम देवेंद्र कुमार (सं. 14354398एच अब जेसी-299080एम), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार किशन पाल गुलेरिया (सं. 14367806एफ अब जेसी-299081पी), 01 अक्टूबर 2004

बीएचएम जय नंदन शर्मा (सं. 14499943एच अब जेसी-299082एक्स), 03 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004×

हवलदार अमर किशोर देब बर्मा (सं. 14356153एल अब जेसी-299083ए), 01 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

बीएचएम लक्ष्मन मासारेड्डी (सं. 14361845के अब जेसी-299084एच), 01 नवम्बर 2004

बीएचएम संकट हरन मिश्रा (सं. 14384382एम अब जेसी-299085एल), 01 नवम्बर 2004

आरएचएम सुरेन्द्र कुमार (सं. 14368609एल अब जेसी-299086एन), 01 सितम्बर 2004

आरएचएम खुरमुल्ली यादव (सं. 14386033एफ अब जेसी-299087डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004

आरएचएम पर्मा सिंह (सं. 14395938एल अब जेसी-299088वाई), 01 नवम्बर 2004

आरएचएम निर्मल सिंह (सं. 14396486ए अब जेसी-299089एफ), 01 नवम्बर 2004

आरएचएम लखविंदर सिंह (सं. 14371394एच अब जेसी-299090डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

हवलदार जितेंद्र सिंह (सं. 14484183एन अब जेसी-299091वाई), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार लाल बहादुर (सं. 14371689वाई अब जेसी-299092एफ), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार सत्यपाल सिंह (सं. 14471496एन अब जेसी-299093के), 01 नवम्बर 2004

हवलदार रोहिताश सिंह तंवर (सं. 14347693एच अब जेसी-299094एम), 01 नवम्बर 2004

हवलदार हुकुम चंद (सं. 14474745एम अब जेसी-299095पी), 01 नवम्बर 2004

हवलदार मोहर सिंह दत्ता (सं. 14359560वाई अब जेसी-299096एक्स), 01 नवम्बर 2004

हवलदार पुजेर मारुती (सं. 14366993वाई अब जेसी-299097ए), 28 अक्टूबर 2004/01 जून 2004×

बीएचएम ए जेम्स (सं. 14354247के अब जेसी-299098एच), 25 सितम्बर 2004/29 जुलाई 2004×

हवलदार हरी सिंह बिष्ट (सं. 14371601के अब जेसी-299099एल), 02 अक्टूबर 2004/05 अगस्त 2004×

बीएचएम ओम प्रकाश (सं. 14467344पी अब जेसी-299100पी), 24 सितम्बर 2004/06 अगस्त 2004×

बीएचएम हरी राम यादव (सं. 14351738पी अब जेसी-299101एक्स), 29 सितम्बर 2004/06 अगस्त 2004×

बीएचएम इकरामा यादव (सं. 14374902वाई अब जेसी-299102ए), 07 सितम्बर 2004/08 अगस्त 2004×

हवलदार अंगद सिंह (सं. 14367898वाई अब जेसी-299103एच), 18 सितम्बर 2004/19 अगस्त 2004×

बीएचएम शिव राम (सं. 14368180एफ अब जेसी-299104एल), 10 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004×

बीएचएम गजराज सिंह यादव (सं. 14353512एच अब जेसी-299105एन), 16 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004×

हवलदार पद्मा राजन्ना (सं. 14386523पी अब जेसी-299106डब्ल्यू), 18 अक्टूबर 2004/10 सितम्बर 2004×

बीएचएम एल एम मीतेई (सं. 14369013एक्स अब जेसी-299107वाई), 01 अक्टूबर 2004

बीएचएम गोविंद सिंह (सं. 14356596एम अब जेसी-299108एफ), 07 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

बीएचएम राकेश बाबू गुप्ता (सं. 14468112एच अब जेसी-299109के), 25 नवम्बर 2004/25 अक्टूबर 2004×

बीएचएम लखविंदर सिंह (सं. 14361890डब्ल्यू अब जेसी-299110वाई), 07 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

बीएचएम शेख मोहम्मद सम्सुजुहा (सं. 14371505पी अब जेसी-299111एफ), 23 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

×(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

राजेन्द्र चतुर्वेदी  
अवर सचिव

-----

सं. 86, दिनांक 19 जनवरी 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले. कर्नल बनाया जाता है

मेजर ए वी गुहा (टीए एम-1162) ए एम सी टी ए, 22 अक्टूबर 2003

मेजर एस नियोगी (टीए एम-1163) ए एम सी टी ए, 07 नवम्बर 2003

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन यश राठौर (टी ए सं. 42361), इन्फैन्ट्री, 11 फरवरी 2003

एम एल शर्मा  
अवर सचिव

-----

सं. 87, दिनांक 20 जनवरी 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समयमान) द्वारा

आई सी-40592 आर मैनन, इन्फैन्ट्री, 12 जून 2002

आई सी-40361 ओ एस सिनसिनवार, आर्टी, 12 जून 2002  
 आई सी-40613 जी शर्मा, इन्फैन्ट्री, 12 जून 2002  
 आई सी-40510 एस बी कुमार, ए एस सी, 12 जून 2002  
 आई सी-37603 के बी सिंह, इन्फैन्ट्री, 30 अप्रैल 2002  
 आई सी-40338 बी सिंह, आर्टी, 12 जून 2002  
 आई सी-41120 बी के पाटी, इन्फैन्ट्री, 18 जून 2003  
 आई सी-41458 डी के राउत, ए ई सी, 18 जून 2003  
 आई सी-41833 नरेन्द्र कुमार, ए ई सी, 17 दिसम्बर 2003  
 आई सी-41845 अमिताभ मिश्रा, ए ई सी, 17 दिसम्बर 2003  
 आई सी-41847 वाई एच वी एस प्रसाद, ए ई सी, 17 दिसम्बर 2003  
 आई सी-41338 एस नन्दा, ए डी ए, 18 जून 2003  
 आई सी-41776 पी श्रीवास्तव, ए डी ए, 17 दिसम्बर 2003  
 आई सी-39745 के अशोकन, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2001  
 आई सी-40941 पी पी एस बुट्टर, आर्टी, 24 दिसम्बर 2002  
 आई सी-41001 पी के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 24 दिसम्बर 2002  
 आई सी-42721 डी आर वसंतराव, सिग्नल, 25 दिसम्बर 2002  
 आई सी-42078 ए के माथुर, इन्फैन्ट्री, 9 जून 2004  
 आई सी-42100 दीपक शर्मा, इन्फैन्ट्री, 9 जून 2004  
 आई सी-42176 एस एस गिल, इन्फैन्ट्री, 9 जून 2004  
 आई सी-45245 प्रकाश धरण, इन्फैन्ट्री, 25 अप्रैल 2004  
 आई सी-45069 जय प्रकाश, इन्फैन्ट्री, 18 जून 2003  
 आई सी-45269 एन एस शेखावत, इन्फैन्ट्री, 25 अप्रैल 2004  
 आई सी-42048 पी के सिंह, आर्टी, 09 जून 2004  
 आई सी-45185 एस त्रिपाठी, ए डी ए, 25 अप्रैल 2004  
 आई सी-42087 के एन बी आचार्य, ए डी ए, 09 जून 2004  
 आई सी-42248 डी एस बिष्ट, ए ई सी, 09 जून 2004  
 आई सी-42256 जगदीश चन्द्रा, ए ई सी, 09 जून 2004  
 आई सी-42262 एस के मित्रा, ए ई सी, 09 जून 2004  
 आई सी-45277 के के वर्मा, राजरिफ, इन्फैन्ट्री, 25 अप्रैल 2004  
 आई सी-44027 मुकेश कुमार, सिग्नल्स, 14 जून 2004

शशि शंकर सिन्हा  
 उप निदेशक सेना सचिव

अभिलेख अधिकारी) (श्रेणी व राजपत्रित) वेतनमान 6500-200-10500 के रूप में सेवा के अभिलेख कार्यालय में नियुक्ति की जाती है :--

पर्सनल सं.	नाम	अभिलेख कार्यालय	से प्रभावी
1287108	श्री नायर टी पी रामाकृष्णन के रामन	ए डी आरटी	01 मई 2004
6424739	श्री सी ए अन्जानियालू	ए एस सी रिकार्ड (दक्षिण)	02 अगस्त 2004
14303336	श्री एन एस पवार	आर्मड कार्पस् रिकार्ड	01 अक्टूबर 2004

के सी उपाध्याय  
 निदेशक (सी पी) (पी)

सं. 89, दिनांक 19 जनवरी 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना  
 स्थाई कमीशन  
 लेफ्टिनेन्ट से कैप्टन

आई सी सं., नाम एवं आर्म  
 53552 करतार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 53601 युद्धवीर सिंह सेखों, इन्फैन्ट्री  
 53813 अजय प्रभाकर, ए सी

--14 जनवरी 2000

58943 पदीर विवेक शंकरराव, इंजीनियर्स

--12 जून 2001

59559 राहुल जयंत, सिग्नल्स

--07 दिसम्बर 2001

61191 ज्योति कुमार, इंजीनियर्स  
 61195 सोमराज त्रिपाठी, सिग्नल्स  
 61196 गौतम सूद, ई एम ई

--13 दिसम्बर 2002

61228 सिमरजीत सिंह, ई एम ई  
 61239 सचिन चौधरी, सिग्नल्स  
 61274 सुप्रतिम दत्ता, इंजीनियर्स  
 61280 विक्रम खजूरिया, ई एम ई  
 61281 धनंजय कुमार, इंजीनियर्स  
 61290 दिवाकर कुमार गुप्ता, इंजीनियर्स  
 61291 अमित बेक्टर, सिग्नल्स  
 61295 विपिन कुमार सक्सेना, ई एम ई  
 61297 मुनीष कुमार खुल्लर, इंजीनियर्स  
 61317 विक्रम सिंह, इंजीनियर्स  
 61320 नितिन, सिग्नल्स

--13 जून 2003

सं. 88, दिनांक 24 जनवरी 2005--निम्नांकित कार्यालय अधीक्षकों की उनके सामने अंकित तिथि से सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (सहायक

54951 रजनीश सिंह गौर, ए एस सी  
 54952 समीर द्विवेदी, आर्टी  
 54953 हरीश्वर सिंह, आर्टी  
 54955 राजेश कुमार, ए डी आर्टी  
 54956 संजीव ठाकुर, ए एस सी

--04 नवम्बर 1999

अल्पकालीन सेवा कमीशन  
 लैफ्टिनेन्ट से कैप्टन

डब्ल्यू एस सं., नाम एवं आर्म  
 00550 लेखा रविचन्द, सिग्नल्स  
 00567 वीनस सेनजाम, इंजीनियर्स  
 00568 सतूती कुमार, सिग्नल्स  
 00569 स्निग्धा शर्मा, इंजीनियर्स  
 00570 परब वैशाली मोहन, इंजीनियर्स  
 00571 मीनाक्षी कादियान, इंजीनियर्स  
 00573 अनीता मारवाह, इंजीनियर्स  
 00581 पारखी प्रीतल अनिल, सिग्नल्स  
 00582 निशी उपाध्याय, ई एम ई  
 00591 शबेता शर्मा, इंजीनियर्स  
 00593 देबस्मिता साहू, सिग्नल्स

--07 मार्च 2004

00604 आभा के एस, सिग्नल्स  
 00612 शैरी गोयल, इंजीनियर्स  
 00621 खान्जोडे सुगन्धा श्रीकृष्णा, ई एम ई  
 00631 मरीदा सिन्हा, ई एम ई  
 00633 एस प्रीथा वरागिनी, सिग्नल्स

--05 सितम्बर 2004

00544 भावना मल्होत्रा, इंजीनियर्स

--07 मार्च 2004

00381 मीनाक्षी समीयाल, ए ओ सी  
 00382 अलवा सपना, ए ओ सी  
 00383 जूही चतुर्वेदी, ए ओ सी  
 00384 सोनाली गुप्ता, ए ओ सी  
 00385 रजनी पठनिया, ए ओ सी  
 00387 अमरजोत कौर गुलाटी, ए एस सी  
 00389 नवनीत कौर, ए ओ सी  
 00390 पिन्टो प्रतिमा गिलबर्ट, ए एस सी  
 00392 रशमो गौतम, ए ओ सी

00393 गोता राणा, ई एम ई  
 00397 राखी श्रीवास्तव, ए एस सी  
 00398 कविता गुसाई, ई एम ई  
 00401 विजय लक्ष्मी, ए एस सी  
 00402 रशमी सिंह, ए एस सी  
 00403 मीनू दहिया, इंजीनियर्स  
 00404 सोफिया कुरैशी, सिग्नल्स  
 00406 वन्दना शर्मा, सिग्नल्स  
 00407 शीमोना मल्होत्रा, ए एस सी  
 00408 डी बी एस लक्ष्मी प्रिया, ई एम ई  
 00410 एकता शर्मा, ए एस सी  
 00411 अंजना कुमारी, सिग्नल्स  
 00412 सोनाली सिंह, ए एस सी  
 00414 सुक्रोति शुक्ला, इन्ट  
 00415 गीतांजली चौहान, ए ओ सी  
 00416 अनुराधा धदवाल, ए ओ सी  
 00417 सिधांती गीता अम्बादास, ए ओ सी  
 00418 नीलम तिवारी, इंजीनियर्स  
 00419 दीपिका बंसल, सिग्नल्स  
 00420 भावना, सिग्नल्स  
 00423 पूनम देवगन, ई एम ई  
 00426 मनीला भारद्वाज, ए एस सी  
 00427 चित्रा सुभाष, ई एम ई  
 00429 स्वाति बैनर्जी, इन्ट  
 00430 अर्चना शुक्ला, इंजीनियर्स  
 00431 निधि सिंह, ए ई सी  
 00432 स्वीटी डोगरा, ई एम ई

--04 सितम्बर 2004

सैकन्ड लैफ्टिनेन्ट से लैफ्टिनेन्ट

एस एस सं., नाम एवं आर्म  
 36329 राजेन्द्र सोनावने, आर्टी/एफ डी

--11 मार्च 1997

स्थाई कमीशन  
 सैकन्ड लैफ्टिनेन्ट से लैफ्टिनेन्ट

आई सी सं., नाम एवं आर्म  
 53552 करतार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 53601 युद्धवीर सिंह सेखों, इन्फैन्ट्री  
 53813 अजय प्रभाकर, ए सी

--10 जून 1997

53981 तरुण बत्रा, ए सी

--9 दिसम्बर 1997

अल्पकालीन सेवा कमीशन  
लैफ्टिनेन्ट से अर्धस्थायी कप्तान

एस एस सं., नाम एवं आर्म

36329 राजेन्द्र सोनावने, आर्टी/एफ डी

--11 मार्च 2004

के एस वर्मा  
संयुक्त निदेशक  
एम एस 8सी

रक्षा उत्पादन विभाग

सं. 90, दिनांक 19 जनवरी 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

गु.आ.नि. (इलैक्ट्रॉनिक्स), बैंगलोर के श्री आर. रमेश, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 की दिनांक 05 जून 2003 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (सामान्य भंडार), कानपुर के अंतर्गत आर.डी.बी. के श्री डी.सी. सहस्रन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 का व.ग.आ.स्था. (इलैक्ट्रॉनिक्स) बैंगलोर में दिनांक 03 फरवरी 2004 (पूर्वाह्न) से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (एल. एंड एस.), चंडीगढ़ के श्री जे. एल. भार्गव, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 का गु.आ.नि. (ई. डब्ल्यू) सिकन्दराबाद में दिनांक 02 दिसम्बर 2003 (पूर्वाह्न) से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (ए.वी.एल.), अवाडी के श्री एस. के. कौशल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 की दिनांक 01 दिसम्बर 2003 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (ओ.एफ.वी.), जबलपुर के श्री नागेन्द्र पाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 का गु.आ.नि. (इंजीनियरी उपस्कर), पुणे में दिनांक 16 मार्च 2004 (पूर्वाह्न) से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (वाहन), चेन्नई के श्री जे. पी. तिवारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 का गु.आ.नि. (वाहन), अहमदनगर में दिनांक 29 नवम्बर 2003 (पूर्वाह्न) से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (वाहन), चेन्नई के अंतर्गत वा.ग.आ.शा. सिकन्दराबाद के श्री पी.वी. कृष्णचंद, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 का गु.आ.नि. (भारी वाहन), अवाडी में दिनांक 01 दिसम्बर 2003 (पूर्वाह्न) से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), मुम्बई के श्री वाई.वी. बैलूर, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 का गु.आ.नि. (सामग्री), कानपुर में दिनांक 26 मार्च 2004 (पूर्वाह्न) से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), मुम्बई के श्री ए.के. मुखोपाध्याय, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 का गु.आ.नि. (सामग्री), कानपुर में दिनांक 06 मई 2004 (पूर्वाह्न) से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

सी.पी.ई. इयरसी के श्री ए. अंबरासन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 का व.गु.आ.स्था. (आयुध), मेडक में दिनांक 14 नवम्बर 2003 (पूर्वाह्न) से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (गोला बारूद), किरकी के श्री एन. मनोहरन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 का गु.आ.नि. (ए.वी.ए.), अवाडी में दिनांक 01 जनवरी 2004 (पूर्वाह्न) से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

डॉ. परबिन्दर कौर  
उप सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 91, दिनांक 24 जनवरी 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के निम्नलिखित ऐक्टिंग अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

विंग कमांडर से स्थाई विंग कमांडर

नाम, सं. और पद	जब से स्थाई पद की मंजूरी दी गई
विंग कमांडर आई सुधाकर (15298) ए.ई. (एल)	19.04.2001

रणवीर सिंह  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
कृते महानिदेशक रक्षा अनु. एवं वि.

वायु सेना

सं. 92, दिनांक 20 जनवरी 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां मूल रैंक में करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

विमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा  
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट की मूल स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

वी डी घोरपाड़े (23908), एम पुरोहित (23914), दिनांक 26 नवम्बर 2004 से।

विमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा  
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट की मूल स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

ए. दामोदरन (23883), एल बिस्वाल (23867), के सी कुटियाह (23874), के गिरी (23863), टी आर कुमार (24325), जी प्रकाश (23865), पी आर कुमार (23882), एस ए सावनुर (23912), आर पी सिंह (23878), जे डब्ल्यू स्टेफन (23872), एम एम के मडिराजु (23871), जी कृष्णाकुमार (23868), एम गोरीमठ (23881), एच मोदी (23870), ए रे (23879), एन कार्तिकेयन (23862), जे आर कौवर (23873), ए करुणाकरन (23876), जी वी जी युगेन्धर (23880), आर जोली (23875), डी डोण्डियाल (23869) एस एस एस येड्ला (23877), दिनांक 26 नवम्बर 2004 से।

**विमानिक अभियंत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा**  
**फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट की मूल स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में**

एस सिंह (24326), बी एस वी राव (23899), सी प्रसाद (24327), ए एस कुमार (23891), बी पी साबुत (23888), एम अग्रवाल (23893), ए सिंघल (23897), पी गोयल (23887), एन ईकमामदिकर (23901), के के दारूवाला (23894), एस एम नायक (23902), पी ईश्वरन (23885), ए भारतिया (23904), पी देवराज (23896), पी चौहान (24328), ए ए गणमिदे (23886), एस के खरे (23911), एच एस डी गोवड़ा (23903), सी सुब्रयन (24395), पी पशुपति (23898), ए के ओशा (23884), बी एन के शर्मा (23900), जी आर एन रेड्डी (23890), टी हसन (24329), दिनांक 26 नवम्बर 2004 से।

**उड़ान पायलट शाखा**

**फ्लाईंग अफसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के रैंक में**

श्रीमती मोना सिरौही (26364), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से

**प्रशासनिक शाखा**

**फ्लाईंग अफसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के रैंक में**

डब्ल्यू आई सिंह (26345), रोडगरस आर एम (26346), गुरुप्रीत सिंह चीमा (26347), मनीष कुमार (26348), योगेश मोहला (26349), आनन्द कान्त (26350), अनुराग शर्मा (26351), एम एस अशोक कुमार (26352), सुनील शर्मा (26353), जी पी राधाकृष्णन (26354), कुनाल खन्ना (26355), एम पी रामा मुर्ति (26356), टी एस नारायणास्वामी (26357), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

**परिभारिकी शाखा**

**फ्लाईंग अफसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के रैंक में**

एस गंगोपाध्याय (26358), पी के श्रीवास्तव (26359), एम एस मिन्हास (26360), एस पी सिंह (26361), सन्तोष कुमार एम नायर (26362), कौशिक मुखर्जी (26363), ए के शर्मा (26327), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

संजीव श्रीवास्तव  
 स्क्वाड्रन लीडर  
 डीडीपीओ-3(डी)

-----

सं. 93, दिनांक 24 जनवरी 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

**भारतीय वायु सेना**

**स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर (टइम स्केल) के मूल रैंक में**

के के कुन्दु (17486) प्रशा., 08 जून 2004  
 वाई आर एस रेड्डी (17487) प्रशा., 08 जून 2004  
 एस रहिन्वाल (17493) प्रशा., 08 जून 2004  
 पी के चन्दोला (17497) प्रशा., 08 जून 2004  
 एम महापात्रा (17499) प्रशा., 08 जून 2004  
 ए एम शर्मा (17500) प्रशा., 08 जून 2004

एस मुरली (17506) प्रशा., 08 जून 2004

ए शर्मा (17507) प्रशा., 08 जून 2004

वी के यादव (17508) प्रशा., 08 जून 2004

एस सी तिवारी (17509) प्रशा., 08 जून 2004

आर सिंह (17511) प्रशा., 08 जून 2004

ए के बाली (17512) प्रशा., 08 जून 2004

आर के नैथानी (17513) प्रशा., 08 जून 2004

पी एम नागराज (17518) संभा., 08 जून 2004

एस के जैन (17519) संभा., 08 जून 2004

एम एन बहुगुना (17520) संभा., 08 जून 2004

आर के यादव (17523) संभा., 08 जून 2004

के आर रामाचन्द्रन (17529) संभा., 08 जून 2004

**संभारिकी शाखा**

**विंग कमांडर (सेलेक्ट) के मूल रैंक में**

एच एस ससन (16452) संभा., 01 दिसम्बर 2002

जे के चक्रवर्ती (16117) संभा., 01 दिसम्बर 2002

एस रतन (16442) संभा., 01 दिसम्बर 2002

जे बी इनामदार (16453) संभा., 01 दिसम्बर 2002

एस शर्मा (16679) संभा., 01 दिसम्बर 2002

वी के सिंह (16680) संभा., 01 दिसम्बर 2002

पी एन नायर (16798) संभा., 01 दिसम्बर 2002

ए हान्डा (15211) संभा., 16 दिसम्बर 2002

डी कुमार (16854) संभा., 01 फरवरी 2003

एस चटर्जी (16070) संभा., 01 जून 2003

पी के सिंह (16855) संभा., 01 जून 2003

ए के बेनीपुरी (16037) संभा., 01 जून 2003

आर सी त्रिपाठी (16858) संभा., 01 जुलाई 2003

एच एस कमल (16860) संभा., 04 जुलाई 2003

आर एस आर शर्मा (16861) संभा., 01 नवम्बर 2003

एस के शुक्ला

उप निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2बी

-----

**सेना शाखा**

सं. 94, दिनांक 24 जनवरी 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ए डी कोर अफसर को अल्पस्थायी कमीशन से मुक्त करते हैं और

07 मई 2004 से ए डी कोर में, थल सेना अनुदेश 37/78 के अधीन, स्थाई कमीशन में नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

सेना दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

स्क्वाड्रन लीडर के पद पर, अल्पकालीन कमीशन से स्थाई कमीशन

07 मई 2004 से

स्क्वाड्रन लीडर (ए एफ-25567) बीजू वर्गीस (डी आर-10567के), 07 मई 2004 परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 26 फरवरी 99 से दी जाती है।

परमजीत सिंह

मेजर जनरल

ए डी जी डी एस

(थल सेना विभाग)

शुद्धि-पत्र

सं. 95, दिनांक 24 जनवरी 2005--भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 06 मई 2004 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना' सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (स्थायी कमीशन) उपशीर्षक 'लैफ्ट से कैप्टन के पद पर' में कैप्टन डी आर-10553के, अतुल बाली के नाम के सामने :--

के स्थान पर --08 अक्टूबर 2003

पढ़ा जाए --08 अप्रैल 2003

परमजीत सिंह

मेजर जनरल

ए डी जी डी एस

सं. 96, दिनांक 20 जनवरी 2005--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

शुद्धि-पत्र

19 जून 2004 को प्रकाशित हुए भारत सरकार के राजपत्र में रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में अल्पकालीन आयोग (परखाधीन) शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के लिये -यू/455 संदीप भट्ट (एस एस-40242एल) सिग्नल्स, 03 जुलाई 2002

पढ़ें -यू/455 संदीप भट्ट (एस एस-40242एल) सिग्नल्स, 03 जुलाई 2001

19 जून 2004 को प्रकाशित हुए भारत सरकार के राजपत्र में रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में स्थायी आयोग शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के लिये -यू/447 मंगेश गहिनिनाथ, आई सी-63283एफ, इंजिनियर्स

पढ़ें -यू/447 मंगेश गहिनिनाथ निमगांवकर, आई सी-63283एफ, इंजिनियर्स

2-454 G1/2004

के लिये -यू/453 समार्ट विलास सावन्त, आई सी-63320के, इंजिनियर्स  
पढ़ें -यू/453 समार्ट विलास सावन्त, आई सी-63320के, इंजिनियर्स  
के लिये -टी/5986 अनिल देव शर्मा जसरोटिया, आई सी-63320के, एईसी

पढ़ें -टी/5986 अनिल देव सिंह जसरोटिया, आई सी-63320के, एईसी

अरविंद कुमार

ले. कर्नल

ए एम एस 8बी

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में

शुद्धि-पत्र

सं. 97, दिनांक 20 जनवरी 2005--भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 09 अक्टूबर 2004 (भाग-I खण्ड 4) के शीर्षक नियमित सेना (ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में) आई सी-34402 जी एस कटोच, इन्फैन्ट्री के नाम के बाद आई सी-34142 के के शर्मा, ए ओ सी की सक्सटैन्टिव डेट (1-12-02) गलत भेज दी गई थी जो कि 01 फरवरी 03 होनी चाहिए।

के लिए

आई सी-34142 के के शर्मा--कर्नल के मूल रैंक की तारीख 01-12-02

पढ़ा जाए

आई सी-34142 के के शर्मा--कर्नल के मूल रैंक की तारीख 01 फरवरी 03

नोट--सक्सटैन्टिव तारीख में बदलाव केवल घरीयता के उद्देश्य से है।

इसमें वेतन भत्ते में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

शशि शंकर सिन्हा

उप निदेशक, सेना सचिव

भारतीय वायु सेना

शुद्धि-पत्र

सं. 98, दिनांक 20 जनवरी 2005--राजपत्र अधिसूचना सं. 45 प्रविष्टि संख्या 490 जो कि वायु शाखा विमानिक अभियांत्रिकी शाखा (इलेक्ट्रिकल) के अन्तर्गत दिनांक 30 अगस्त 2003 को प्रकाशित की गई उसमें निम्नलिखित अफसर का नाम शामिल किया जाता है :--

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

पी कुकरेटी दिनांक 28 सितम्बर 2000 से।

राजपत्र अधिसूचना सं. 45 प्रविष्टि संख्या 490 जो कि वायु शाखा विमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा के अन्तर्गत दिनांक 30 अगस्त 2003 को प्रकाशित की गई थी। मूल स्क्वाड्रन लीडर पदोन्नति की दिनांक में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :--

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

के लिए

28 सितम्बर 2002

पढ़ा जाए

28 सितम्बर 2000

पी अन्ते

विंग कमाण्डर

जे डी पी ओ 3 (डी)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 12th February 2005

No. 82, dated 17th January 2005.—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Rekha Bhargava, IAS (MP: 73) on transfer from the Govt. of Madhya Pradesh as Additional Secretary, Department of Ex-Servicemen's Welfare, Ministry of Defence w.e.f. 15.12.2004 (FN) until further orders.

2. This supersedes this Ministry's Notification of even number dated 16.12.2004.

The President is pleased to appoint Dr. Alind Rastogi, IFS (MT: 86) on transfer from the Govt. of Tripura as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 3.1.2005 (FN) upto 2.1.2010 or until further orders, whichever is earlier.

V. SARASWATHY  
Dy. Secy.

## (ARMY BRANCH)

No. 83, dated 24 January 2005.—The President is pleased to make the following appointment under AI 37/78 as amended:—

## REGULAR ARMY

## ARMY DENTAL CORPS

## (DIRECT PERMANENT COMMISSION)

To be Lt (On Probation)

Atul Bali, BDS Shimla (DR-10553K), AD Corps—08 Apr 2003 with seniority for pay and promotion from 08.10.2002 (includes 06 months ante date for paid job of Head/Incharge of Department in Himachal Pradesh, Govt. Dental College & Hospital, Shimla, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 02.08.2003 insofar as it pertain to the officer is hereby cancelled.

PARAMJIT SINGH  
Maj Genl.  
Addl. DGDS

## AIR BRANCH

No. 84, dated 20th January 2005.—The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (On Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Wings (On Probation) i.e. 21 Dec 2002.

## INDIAN AIR FORCE

## FLYING (PILOT) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Nitin Rawat (27199), Gaurav Awasthi (27203),

Mandeep Hooda (27204), Sheik Fazulul Haque (27226) wef 21 Dec 2002.

S. SRIVASTAV  
Sqn Ldr  
DDPO-3 (D)

## ARMY BRANCH

No. 85, dated 18th January 2005.—The President is pleased to make the following promotion wef the date shown against their names:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Capt to be Substantive Major

Capt Tushar Upasani (V-514X), RVC—02 Sep 2003

Capt Ravi Kant Sharma (V-525K), RVC—02 Sep 2003

Capt Vishal Nanda (V-527P), RVC—02 Sep 2002

Capt Rishav Dutta (V-529A), RVC—03 Mar 2004

Capt Jagbir Singh Rana (V-530P), RVC—03 Mar 2004

Capt Jaivinder Singh (V-531X), RVC—03 Mar 2004

Capt M Khizar Asif M Akbar (V-532A), RVC—20 Mar 2004

Capt Satinderpal Singh (V-533H), RVC—16 Jun 2004

Capt Vikas Thakur (V-534L), RVC—05 Oct 2004

Capt S K Choubey (V-539K), RVC—05 Oct 2004

Capt H K Tiwari (V-540Y), RVC—05 Oct 2004

Capt B Rajakumar (V-541F), RVC—05 Oct 2004

Capt Sukhbir Singh (V-545X), RVC—05 Oct 2004

## CORPS OF AD ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Sukh Ram (JC-255435M), 01 Jun 2004

Sub Arjun Prashad Tripathi (JC-255520P), 01 Sep 2004

Sub Chandi Prasad (JC-255906P), 01 Nov 2004

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Rampat Yadav (JC-298267M), 07 Oct 2004/29 Feb 2004\*

Nb Sub Raj Kumar Sharma (JC-297892F), 14 Apr 2004/15 Mar 2004\*

Nb Sub Chhote Lal Yadav (JC-297908F), 01 Sep 2004/01 May 2004\*

Nb Sub Dalbir Singh (JC-297985W), 01 June 2004

Nb Sub Gurram Dibbanna (JC-297989M), 09 Jun 2004/01 Jun 2004\*

Nb Sub Ombir Singh (JC-297458P), 01 Jul 2004

Nb Sub Ram Prasad Pandey (JC-297549Y), 08 Aug 2004/01 Jul 2004\*

Nb Sub Chandrama Mishra (JC-298001A), 01 Jul 2004

Nb Sub Mulayam Singh (JC-298004N), 05 Jul 2004/01 Jul 2004\*

Nb Sub Ashok Huddar (JC-298154K), 01 Jul 2004

Nb Sub M Dorai (JC-298104Y), 23 Aug 2004/30 Jul 2004\*

Nb Sub Ramesh Chand (JC-298607K), 24 Sep 2004/30 Jul 2004\*

Nb Sub Satya Pal (JC-298026M), 09 Sep 2004/26 Jul 2004\*

Nb Sub Chinna Durai S (JC-298095H), 25 Sep 2004/29 Jul 2004\*

Nb Sub Pulasani Chinna Narayana Reddy (JC-297958M), 01 Oct 2004/31 Jul 2004\*

Nb Sub Nathu Yadava (JC-298268P), 22 Sep 2004/31 Jul 2004\*

Nb Sub Virendra Singh (JC-297698M), 09 Sep 2004/01 Aug 2004\*

Nb Sub MD Karimuddin (JC-297857Y), 20 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Nb Sub Karan Singh (JC-298068Y), 28 Sep 2004/01 Aug 2004

Nb Sub Chaman Lal (JC-298375W), 15 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Nb Sub Mahender Mahto (JC-298343F), 04 Oct 2004/01 Aug 2004\*

Nb Sub Adiverna M Tigadi (JC-298611M), 28 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Nb Sub Venkappa S (JC-297114W), 01 Sep 2004/08 Aug 2004\*

Nb Sub Bhabesh Chandra Barman (JC-298039K), 18 Sep 2004/15 Aug 2004\*

Nb Sub Ram Sewak Sharma (JC-298550A), 03 Oct 2004/24 Aug 2004\*

Nb Sub Nepal Singh (JC-297748M), 07 Sep 2004/01 Sep 2004\*

Nb Sub Hari Kishan (JC-297832M), 10 Sep 2004/01 Sep 2004\*

Nb Sub Jalshi Ram (JC-298016H), 04 Oct 2004/01 Sep 2004\*

Nb Sub Kunwar Kedarnath Singh (JC-297964A), 01 Sep 2004

Nb Sub Om Prakash Harijan (JC-298048L), 18 Sep 2004/01 Sep 2004\*

Nb Sub Raghvir Singh (JC-298419H), 01 Sep 2004

Nb Sub Amar Singh (JC-297129Y), 01 Oct 2004/05 Sep 2004\*

Nb Sub Prabin CH Nath (JC-297515L), 01 Nov 2004/22 Sep 2004\*

Nb Sub Rajendra Singh (JC-297457M), 01 Oct 2004

Nb Sub Rajinder Singh (JC-297800K), 03 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Nb Sub Ouseph Cherian (JC-297802P), 01 Oct 2004

Nb Sub Gurdev Chand (JC-297983L), 16 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Nb Sub Sukhender Singh (JC-298006Y), 01 Oct 2004

Nb Sub Sonawane Vijay Kumar Kishan (JC-298334M), 01 Oct 2004

Nb Sub Binod Singh (JC-298350K), 01 Oct 2004

Nb Sub Brij Lal Yadav (JC-298510Y), 23 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Nb Sub Maibam Khogendra Singh (JC-297607X), 01 Nov 2004

#### To be Substantive Subedar (TIFC)

Nb Sub Deva Guptapu Venkata Ramji (JC-298245N), 01 Apr 2004

Nb Sub Kawaljeet Singh Dutta (JC-298473W), 30 Aug 2004/11 Aug 2004\*

Nb Sub Rishi Pal (JC-298530H), 07 Sep 2004/11 Aug 2004\*

Nb Sub Gopal Singh (JC-298508F), 31 Aug 2004/11 Aug 2004\*

Nb Sub Kailash Pati Tiwari (JC-298538Y), 30 Aug 2004/11 Aug 2004\*

Nb Sub Lakhan Singh (JC-298474Y), 20 Aug 2004/11 Aug 2004\*

Nb Sub Jeewan Lal (JC-298540W), 01 Sep 2004

Nb Sub Umakant Mishra (JC-298573F), 01 Sep 2004

Nb Sub Lakhan Singh (JC-298539F), 01 Oct 2004

#### To be Nb Sub

Hav Ram Prakash Singh (No. 14490655P now JC-299070H), 23 Jul 2004/01 Jun 2004\*

Hav Rahmat Hussain (No. 14472687P now JC-299071L), 01 Jul 2004

Hav Ram Autar (No. 14367462N now JC-299072N), 29 Sep 2004/25 Jul 2004\*

Hav V Namasivayam (No. 14361076L now JC-299073W),  
26 Aug 2004/05 Aug 2004\*

BHM Sahab Singh (No. 14348647A now JC-299074Y),  
01 Sep 2004/08 Aug 2004\*

Hav Ashok Kumar (No. 14352616X now JC-299075F),  
04 Sep 2004/31 Aug 2004\*

Hav Satvir Singh (No. 14348428Y now JC-299076K), 19  
Oct 2004/31 Aug 2004\*

RHM Bondalapu Rama Rao (No. 14358410W now JC-  
299077M), 22 Oct 2004/01 Sep 2004\*

BHM S Devaraju (No. 14358273H now JC-299078P),  
04 Oct 2004/02 Sep 2004\*

Hav Kulwinder Singh (No. 14363723Y now JC-  
299079X), 01 Nov 2004/22 Sep 2004\*

BHM Devendra Kumar (No. 14354398H now JC-  
299080M), 01 Oct 2004

Hav Krishan Pal Guleria (No. 14367806F now JC-  
299081P), 01 Oct 2004

BHM Jai Nandan Sharma (No. 14499943H now JC-  
299082X), 03 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav Amar Kishor Deb Barma (No. 14356153L now JC-  
299083A), 01 Nov 2004/01 Oct 2004\*

BHM Laxman Masaraddi (No. 14361845K now JC-  
299084H), 01 Nov 2004

BHM Sankat Haran Mishra (No. 14384382M now JC-  
299085L), 01 Nov 2004

RHM Surendra Kumar (No. 14368609L now JC-  
299086N), 01 Sep 2004

RHM Khurmulli Yadav (No. 14386033F now JC-  
299087W), 01 Sep 2004

RHM Parma Singh (No. 14395938L now JC-299088Y),  
01 Nov 2004

RHM Nirmal Singh (No. 14396466A now JC-299089F),  
01 Nov 2004

RHM Lakhwinder Singh (No. 14371394H now JC-  
299090W), 01 Aug 2004

Hav Jitinder Singh (No. 14484183N now JC-299091Y),  
01 Oct 2004

Hav Lal Bahadur (No. 14371689Y now JC-299092F), 01  
Oct 2004

Hav Satyapal Singh (No. 14471496N now JC-299093K),  
01 Nov 2004

Hav Rohitash Singh Tanwar (No. 14347693H now JC-  
299094M), 01 Nov 2004

Hav Hukum Chand (No. 14474745M now JC-299095P),  
01 Nov 2004

Hav Mohar Singh Dutta (No. 14359560Y now JC-  
299096X), 01 Nov 2004

Hav Pujer Maruti (No. 14366993Y now JC-299097A),  
28 Oct 2004 01 Jun 2004\*

BHM A James (No. 14354247K now JC-299098H), 25  
Sep 2004/29 Jul 2004\*

Hav Hari Singh Bisht (No. 14371601K now JC-299099L),  
02 Oct 2004/05 Aug 2004\*

BHM Om Prakash (No. 14467344P now JC-299100P),  
24 Sep 2004/06 Aug 2004\*

BHM Hari Ram Yadav (No. 14351738P now JC-  
299101X), 29 Sep 2004/06 Aug 2004\*

BHM Ikrama Yadav (No. 14374902Y now JC-299102A),  
07 Sep 2004/08 Aug 2004\*

Hav Angad Singh (No. 14367898Y now JC-299103H),  
18 Sep 2004/19 Aug 2004\*

BHM Shiv Ram (No. 14368180F now JC-299104L), 10  
Sep 2004/01 Sep 2004\*

BHM Gajraj Singh Yadav (No. 14353512H now JC-  
299105N), 16 Sep 2004/01 Sep 2004\*

Hav Padma Rajanna (No. 14386523P now JC-299106W),  
18 Oct 2004/10 Sep 2004\*

BHM L M Meetei (No. 14369013X now JC-299107Y),  
01 Oct 2004

BHM Govind Singh (No. 14356596M now JC-299108F),  
07 Nov 2004/01 Oct 2004\*

BHM Rakesh Babu Gupta (No. 14468112H now JC-  
299109K), 25 Nov 2004/25 Oct 2004\*

BHM Lakhwinder Singh (No. 14361890W now JC-  
299110Y), 07 Nov 2004/01 Nov 2004\*

BHM SK Md Samsuzuha (No. 14371505P now JC-  
299111F), 23 Nov 2004/01 Nov 2004\*

\*(Gtd ante-date seniority wef)

RAJENDRA CHATURVEDI  
Under Secy.

No. 86, dated 19th January 2005.—The President is  
pleased to make the following promotions:—

TERRITORIAL ARMY  
TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

TA (M)-1162 Maj A B Guha, AMC (TA)—22 Oct 2003

TA (M)-1163 Maj S Niyogi, AMC (TA)—07 Nov 2003

To be Maj

Capt Yash Rathore (TA-42361), Infantry—11 Feb 2003

M L SHARMA  
Under Secy.

K K Verma (IC-45277), Raj Rif—25 Apr 2004

Mukesh Kumar (IC-44027), Sigs—14 Jun 2004

S S SINHA  
Dy. Dir.  
DAMS-8A

No. 87, dated 20th January 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Majors to be Substantive Lt Col (Time Scale)

R Menon (IC-40592), Inf—12 Jun 2002

O S Sinsinwar (IC-40361), Arty—12 Jun 2002

G. Sharma (IC-40613), Inf—12 Jun 2002

S V Kumar (IC-40510), ASC—12 Jun 2002

K B Singh (IC-37603), Inf—30 Apr 2002

B Singh (IC-40338), Arty—12 Jun 2002

B K Paty (IC-41120), Inf—18 Jun 2003

D K Rout (IC-41458), AEC—18 Jun 2003

Narendra Kumar (IC-41833), AEC—17 Dec 2003

Amitabh Mishra (IC-41845), AEC—17 Dec 2003

YHVS Prasad (IC-41847), AEC—17 Dec 2003

S Nanda (IC-41338), ADA—18 Jun 2003

P Srivastava (IC-41776), ADA—17 Dec 2003

K Ashokan (IC-39745), Inf—13 Jun 2001

P P S Buttai (IC-40941), Arty—24 Dec 2002

P. K. Sharma (IC-41001), Inf—24 Dec 2002

D. R. Vasantryao (IC-42721), Sig—25 Dec 2002

A K Mathur (IC-42078), Inf—09 Jun 2004

Deepak Sharma (IC-42100), Inf—09 Jun 2004

S S Gill (IC-42176), Inf—09 Jun 2004

Prakash Dharan (IC-45245), Inf—25 Apr 2004

Jai Prakash (IC-45069), Inf—18 Jun 2003

N S Shekhawat (IC-45269), Inf—25 Apr 2004

P K Singh (IC-42048), Arty—09 Jun 2004

S Tripathi (IC-45185), ADA—25 Apr 2004

K N V Achary (IC-42087), ADA—09 Jun 2004

D S Bisht (IC-42248), AEC—09 Jun 2004

Jagdish Chandra (IC-42256), AEC—09 Jun 2004

S K Mishra (IC-42262), AEC—09 Jun 2004

No. 88, dated 24th January 2005.—The following Office Superintendents are promoted as Civilian Gazetted Officers (Assistant Record Officers) Group 'B' Gazetted in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in Record Offices of the Army from the dates noted against their names:—

Sh. Nair T P Ramakrishnan K Raman (1287108), AD Arty—01 May 2004

Sh. C A Anjaneyalu (6424739), ASC (South)—02 Aug 2004

Sh. N S Pawar (14303336), Armd—01 Oct 2004

K C UPADHYAYA  
Director (CP) (P)

No. 89, dated 19th January 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No., Name and Arm

IC-53552 Kartar Singh, Inf

IC-53601 Yudhvir Singh Sekhon, Inf

IC-53813 Ajay Prabhakar, AC

—14 Jan 2000—

IC-58943 Padir Vivek Shankarrao, Engrs

—12 Jun 2001—

IC-59559 Rahul Jayant, Sigs

—07 Dec 2001—

IC-61191 Jyoti Kumar, Engrs

IC-61195 Som Raj Tripathi, Sigs

IC-61196 Gautam Sood, EME

—13 Dec 2002—

IC-61228 Simarjeet Singh, EME

IC-61239 Sachin Chaudhary, Sigs

IC-61274 Supratim Datta, Engrs

IC-61280 Vikram Khajuria, EME

IC-61281 Dhananjay Kumar, Engrs

IC-61290 Diwakar Kumar Gupta, Engrs  
 IC-61291 Amit Bector, Sigs  
 IC-61295 Vipin Kumar Saxena, EME  
 IC-61297 Munish Kumar Khullar, Engrs  
 IC-61317 Vikram Singh, Engrs  
 IC-61320 Nitin, Sigs

—13 Jun 2003—

IC-54951 Rajneesh Singh Gaur, ASC  
 IC-54952 Sameer Dwivedi, Arty  
 IC-54953 Harishwar Singh, Arty  
 IC-54955 Rajesh Kumar, AD Arty  
 IC-54956 Sanjeev Thakur, ASC

—04 Nov 1999—

#### SHORT SERVICE COMMISSION

Lt to be Capt

##### WS No., Name and Arm

WS-00550 Lekha Ravichand, Sigs  
 WS-00567 Venus Senjam, Engrs  
 WS-00568 Stuti Kumar, Sigs  
 WS-00569 Snigdha Sharma, Engrs  
 WS-00570 Parab Vaishali Mohan, Engrs  
 WS-00571 Meenakshi Kadian, Engrs  
 WS-00573 Anita Marwah, Engrs  
 WS-00581 Parkhi Preetal Anil, Sigs  
 WS-00582 Nishi Upadhyay, EME  
 WS-00591 Shaveta Sharma, Engrs  
 WS-00593 Debasmita Sahu, Sigs

—07 Mar 2004—

WS-00604 Aabha KS, Sigs  
 WS-00612 Shery Goel, Engrs  
 WS-00621 Khanzode Sugandha Shrikrishna, EME  
 WS-00631 Maryda Sinha, EME  
 WS-00633 S Pritha Varagini, Sigs

—05 Sep 2004—

WS-00544 Bhavna Malhotra, Engrs

—07 Mar 2004—

WS-00381 Meenakshi Samiyal, AOC  
 WS-00382 Alva Sapna, AOC  
 WS-00383 Juhi Chaturvedi, AOC

WS-00384 Sonali Gupta, AOC  
 WS-00385 Rajni Pathania, AOC  
 WS-00387 Amarjeet Kaur Gulati, ASC  
 WS-00389 Navneet Kaur, AOC  
 WS-00390 Pinto Pratima Gilbert, ASC  
 WS-00392 Rashmi Gautam, AOC  
 WS-00393 Geeta Rana, EME  
 WS-00397 Rakhi Srivastava, ASC  
 WS-00398 Kavita Gusain, EME  
 WS-00401 Vijay Lakshmi, ASC  
 WS-00402 Rashmi Singh, ASC  
 WS-00403 Meenu Dahiya, Engrs  
 WS-00404 Sofiya Qureshi, Sigs  
 WS-00406 Vandana Sharma, Sigs  
 WS-00407 Shemona Malhotra, ASC  
 WS-00408 DVS Lakshmi Priya, EME  
 WS-00410 Ekta Sharma, ASC  
 WS-00411 Anjana Kumari, Sigs  
 WS-00412 Sonali Singh, ASC  
 WS-00414 Sukriti Shukla, Int.  
 WS-00415 Gitanjali Chauhan, AOC  
 WS-00416 Anuradha Dhadwal, AOC  
 WS-00417 Siddhanti Gita Ambadas, AOC  
 WS-00418 Neelam Tiwari, Engrs  
 WS-00419 Deepika Bansal, Sigs  
 WS-00420 Bhavna, Sigs  
 WS-00423 Poonam Devgan, EME  
 WS-00426 Manila Bharadwaj, ASC  
 WS-00427 Chitra Subhas, EME  
 WS-00429 Swati Banerjee, Int.  
 WS-00430 Archana Shukla, Engrs  
 WS-00431 Nidhi Singh, AEC  
 WS-00432 Sweetly Dogra, EME

—04 Sep 2004—

2/Lt to be Lt

##### SS No., Name and Arm

SS-36329 Rajendra Sonawane, Arty/FD

—11 Mar 1997—

## PERMANENT COMMISSION

2/LT To be LT

IC No., Name and Arm

IC-53552 Kartar Singh, Inf

IC-53601 Yudhvir Singh Sekhon, Inf

IC-53813 Ajay Prabhakar, AC

—10 Jun 1997—

IC-53981 Tarun Batra, AC

—09 Dec 1997—

## SHORT SERVICE COMMISSION

Lt to be Quasi Substantive Capt

SS No., Name and Arm

SS-36329 Rajendra Sonawane, Arty/FD

—11 Mar 2004—

K S VERMA

Jt. Dir.

MS-8C

## (DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 90, dated 19th January 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

Shri R Ramesh, SSO-I, CQA (L), Bangalore to be PScO in situ w.e.f. 05 Jun 2003 (F/N).

Shri D C Sehrun, SSO-I, RDB Kanpur under CQA (GS), Kanpur to be PScO at SQAE (L), Bangalore w.e.f. 03 Feb 2004 (F/N).

Shri J L Bhargava, SSO-I, SQAE (L&S), Chandigarh to be PScO at CQA (FW), Secunderabad w.e.f. 02 Dec 2003 (F/N).

Shri S K Koshal, SSO-I, CQA (AVL), Avadi to be PScO in situ w.e.f. 01 Dec 2003 (F/N).

Shri Nagendra Pal, SSO-I, CQA (OFV), Jabalpur to be PScO at CQA (EE), Pune w.e.f. 16 Mar 2004 (F/N).

Shri J P Tiwari, SSO-I, SQAE (V), Chennai to be PScO at CQA (V), Ahmednagar w.e.f. 29 Nov 2003 (F/N).

Shri P V Krishnachand, SSO-I, VQAW, Secunderabad under SQAE (V), Chennai to be PScO at CQA (HV), Avadi w.e.f. 01 Dec 2003 (F/N).

Shri Y V Bailur, SSO-I, SQAE (GS), Mumbai to be PScO at CQA (M), Kanpur w.e.f. 26 Mar 2004 (F/N).

Shri A K Mukhopadhyay, SSO-I, SQAE (GS), Mumbai to be PScO at CQA (M), Kanpur w.e.f. 06 May 2004 (F/N).

Shri A Anbarasan, SSO-I, CPE Itarsi to be PScO SQAE (A), Medak w.e.f. 14 Nov 2003 (F/N).

Shri N Manoharan, SSO-I, CQA (Amn), Kirkee to be PScO at CQA (AVA), Avadi w.e.f. 01 Jan 2004 (F/N).

DR. PARVINDER KAUR

Dy. Secy.

## DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT

## (DEFENCE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT ORGANISATION)

No. 91, dated 24th January 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

Acting Wg Cdr to Substantive Wg Cdr

Wg Cdr I Sudhakar (15298), AE (L)—19 Apr 2001

RANBIR SINGH

Jt. Director (Pers)

## (AIR FORCE)

No. 92, dated 20th January 2005.—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

## INDIAN AIR FORCE

## AE (L) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

VD Ghorpade (23908), M Purohit (23914)

—26 November 2004—

## AE (M) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

A Damodaran (23883), L Biswal (23867), KC Kuttaiah (23874), K Giri (23863), TR Kumar (24325), G Prakash (23865), PR Kumar (23882), SA Savanur (23912), RV Singh (23878), JW Stephen (23872), MMK Madiraju (23871), G Krishnakumar (23868), M Gourimath (23881), H Modi (23870), A Ray (23879), N Karthikeyan (23862), JR Konwar (23873), A Karunakaran (23876), GVG Yugandhar (23880), R Jolly (23875), D Dhaundiyal (23869), SSS Yedla (23877).

—26 November 2004—

## AE (L) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

S Singh (24326), BSV Rao (23899), C Prasad (24327), AS Kumar (23891), BP Sabut (23888), M Agrawal (23893), A Singhal (23897), P Goel (23887), N Ekmamdikar (23901), KK Daruwalla (23894), SM Naik (23902), P Eshwaran (23885), A Bhartiya (23904), P Devraj (23896), V Chauhan (24328), AA Gajbhiye (23886), SK Khare (23911), HSD Gowda (23903), C Subbarayan (23895),

P Pasupathy (23898), AK Ojha (23884), BNK Sharma (23900), GRN Reddy (23890), T Hasan (24329).

—26 November 2004—

#### F(P) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

(Mrs) Mona Sirohi (26364)

—16 December 2004—

#### ADM BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

W I Singh (26345), Rodgers RM (26346), Gurpreet S Cheema (26347), Manish Kumar (26348), Yogesh Mohla (26349), Anand Kant (26350), Anurag Sharma (26351), MS Ashok Kumar (26352), Sunil Sharma (26353), G P Radhakrishnan (26354), Kunal Khanna (26355), MV Rama Murthy (26356), T S Narayanaswamy (26357).

—16 December 2004—

#### LGS BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

S Gangopadhyay (26358), P K Srivastava (26359), M S Manhas (26360), S P Singh (26361), Santosh Kumar M Nair (26362), Koushik Mukherjee (26363), A K Sharma (26327).

—16 December 2004—

S SRIVASTAV  
Sqn Ldr  
DDPO 3 (D)

No. 93, dated 24th January 2005.—The President is pleased to make the following substantive promotions:—

#### INDIAN AIR FORCE

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr (Time Scale)

KK Kundu (17486), ADM—08 Jun 2004

YRS Reddy (17487), ADM—08 Jun 2004

S Rahinwal (17493), ADM—08 Jun 2004

PK Chandola (17497), ADM—08 Jun 2004

M Mahapatra (17499), ADM—08 Jun 2004

AM Sharma (17500), ADM—08 Jun 2004

S Murali (17506), ADM—08 Jun 2004

A Sharma (17507), ADM—08 Jun 2004

VK Yadav (17508), ADM—08 Jun 2004

SC Tiwari (17509), ADM—08 Jun 2004

R Singh (17511), ADM—08 Jun 2004

AK Bali (17512), ADM—08 Jun 2004

RK Naithani (17513), ADM—08 Jun 2004

PM Nagraj (17518), LGS—08 Jun 2004

SK Jain (17519), LGS—08 Jun 2004

MN Bahuguna (17520), LGS—08 Jun 2004

RK Yadav (17523), LGS—08 Jun 2004

KR Ramachandran (17529), LGS—08 Jun 2004

#### LOGISTICS BRANCH

To be Substantive Wing Commander (Select)

Wg Cdr (Actg) HS Sassan (16452), LGS—01 Dec 2002

Wg Cdr (Actg) JK Chakraborty (16117), LGS—01 Dec 2002

Wg Cdr (Actg) S Rattan (16442), LGS—01 Dec 2002

Wg Cdr (Actg) JB Inamdar (16453), LGS—01 Dec 2002

Wg Cdr (Actg) S Sharma (16679), LGS—01 Dec 2002

Wg Cdr (Actg) VK Singh (16680), LGS—01 Dec 2002

Wg Cdr (Actg) PN Nair (16798), LGS—01 Dec 2002

Wg Cdr (Actg) A Handa (15211), LGS—16 Dec 2002

Wg Cdr (Actg) D Kumar (16854), LGS—01 Feb 2003

Wg Cdr (Actg) S Chatterjee (16070), LGS—01 Jun 2003

Wg Cdr (Actg) PK Singh (16855), LGS—01 Jun 2003

Wg Cdr (Actg) AK Benipuri (16037), LGS—01 Jun 2003

Wg Cdr (Actg) RC Tripathi (16858), LGS—01 Jul 2003

Wg Cdr (Actg) HS Kamal (16860), LGS—04 Jul 2003

Wg Cdr (Actg) RSR Sharma (16861), LGS—01 Nov 2003

S K SHUKLA

Dy. Director of Personnel (Officers) 2 (B)

#### (ARMY BRANCH)

No. 94, dated 24th January 2005.—The President is pleased to permit undermentioned officer to relinquish the Short Service Commission in the Army Dental Corps wef 07.05.2004 and to grant them Permanent Commission in the Army Dental Corps from the same date under AI 37/78 as amended:—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY DENTAL CORPS

#### (PERMANENT COMMISSION)

To be Sqn Ldr

Granted Permanent Commission wef 07.05.2004

Biju Varughese (DR-10567K) (AF-25567), 07 May 2004 with seniority for pay Promotion & pension from 26.02.1999.

PARAMJIT SINGH

Maj Gen

Addl. DGDS

## ARMY BRANCH

## CORRIGENDUM

No. 95, dated 24th January 2005.—In Ministry of Defence Gazette Notification No. .... dated ..... published in the Gazette of India dated 06.05.2004 under the heading "REGULAR ARMY" —ARMY DENTAL CORPS (PERMANENT COMMISSION) Sub Heading 'Lt to be Capt' against the name of DR-10553K Atul Bali,

*For*—08.10.2003

*Read*—08.04.2003

PARAMJIT SINGH

Maj Gen

Addl. DGDS

No. 96, dated 20th January 2005.—The President is pleased to make the following appointments:—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

## CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 19 Jun 2004 under the heading "Short Service Commission (on probation)" in the Regular Army is hereby amended as under:—

*For*—U/455 Sandeep Bhat (SS-40242L), Sigs—03 Jul 02

*Read*—U/455 Sandeep Bhat (SS-40242L), Sigs—03 Jul 01

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 19 Jun 2004 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army is hereby amended as under:—

*For*—U/447 Mangesh Gahininath (IC-63283F), Engrs

*Read*—U/447 Mangesh Gahininath Nimgaonkar (IC-63283F), Engrs

*For*—U/453 Samrat Vilas Sawant (IC-63320K), Engrs

*Read*—U/453 Samrat Vilas Sawant (IC-63320K), Engrs

*For*—T/5986 Anil Dev Sharma Jasrotia (IC-63287X), AEC

*Read*—T/5986 Anil Dev Singh Jasrotia (IC-63287X), AEC

ARVIND KUMAR

Lt Col

AMS 8B

## CORRIGENDUM

## Lt Col to Substantive Col

No. 97, dated 20th January 2005.—In the Gazette of India Notification dated 09 Oct 2004 (Part I Section IV) under the heading Regular Army Lt Col to be substantive Col after the name of IC-34402 GS Katoch, Inf, the subs date of IC-34142 KK Sharma, AOC was wrongly sent as 01.12.2002 which should be 01.02.2003.

IC-34142 KK Sharma, AOC was approved for acting rank of Col in No. 3SB as a first review case and not as a fresh case. In other words officer is of 1978 batch for subs Col and not of 1977 batch.

*For*—IC-34142 KK Sharma, AOC—Subs Date : 01 Dec 2002

*Read*—IC-34142 KK Sharma, AOC—Subs Date : 01 Feb 2003

Note: The change of substantive date will only change the seniority and will not affect the pay and allowances.

S S SINHA

Dy. Director

MS-8A

## INDIAN AIR FORCE

## CORRIGENDUM

No. 98, dated 20th January 2005.—Reference Ministry of Defence Notification SI No. 35 Entry No. 490 published in the Gazette dated 30.08.2003 under Air Branch, AE (L) Branch. The name of the under mentioned officer is included.

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

V Kukreti (21430), wef 28 September 2000

Reference Ministry of Defence Notification SI No. 35 Entry No. 490 published in the Gazette dated 30.08.2003 under Air Branch, AE (M) Branch. The date of promotion to the substantive rank of Sqn Ldr is amended as under :—

Flt Lt to be substantive Sqn Ldr

*For*—28 Sep 2002

*Read*—28 Sep 2000

P ANTO

Wg Cdr

JDPO-3 (D)